

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 333*
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महाराष्ट्र में बेघर बीपीएल लोगों के लिए आवास

333*. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) बेघर लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य विशेषकर अहमदनगर जिले में शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर अहमदनगर जिले सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले (बीपीएल) शेष बेघर लोगों को आवास प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

महाराष्ट्र में बेघर बीपीएल लोगों के लिए आवास के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं . 333* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की अवधारणा पर आधारित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के तहत विनिर्दिष्ट आवास वंचन मानकों और बहिर्वेशन मानदंडों तथा एसईसीसी, 2011 में छूट गए पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए किए गए नवीन सर्वेक्षण आवास + 2018 पर आधारित है। इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएमएवाई -जी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में रिलीज की गई कुल केंद्रीय निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

2018-19	2019-20	2020-21
1135.53	1815.33	1310.10

(ख): उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में तथा अहमदनगर जिले के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में लाभान्वित लोगों की संख्या (जिनके लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं) निम्नानुसार है:

(स्वीकृत आवास इकाई संख्या में)

राज्य/जिला	2018-19	2019-20	2020-21
महाराष्ट्र	79198	249297	296443
अहमद नगर जिले का शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *	1382	5301	6452

* अहमद नगर जिले के छह ब्लॉक (अकोला, संगमनेर, शिर्डी (रहाटा), कोपरगांव, श्रीरामपुर और नेवासा)

(ग): मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 15,05,983 परिवारों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। राज्य ने लाभार्थियों के लिए 9,88,698 आवास स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा लाभार्थियों के लिए 5,17,285 आवास स्वीकृत किया जाना शेष है। राज्य द्वारा उसके समग्र आवंटन में से अहमदनगर जिले को 66,028 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसमें से लाभार्थियों के लिए केवल 41,926 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 32,656 आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है।
